

प्रेस नोट दिनांक 23.05.2021

थाना अलीगंज, जनपद बरेली

थाना अलीगंज #Bareillypolice द्वारा एक अभियुक्त विमल को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से 16 कि०ग्रा० अफीम जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 48 लाख रूपये बरामद।

श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद बरेली के आदेश के अनुपालन में एवं श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण जनपद बरेली व श्रीमान क्षेत्राधिकारी आंवला महोदय के पर्यवेक्षण में थाना अलीगंज जिला बरेली पुलिस के उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह, का० 2995 रजनीश कुमार, का० 2997 रविगिरी दिनांक 22.05.2021 को कोविड -19 के नियमों का पालन कराने के लिये मास्क चैकिंग कर रहे थे कि उसी समय गिरधरपुर मोड के पास गिरधरपुर की तरफ से दो व्यक्ति मो०सा० पर आये जिनके पास एक बोरी थी उन्हे रूकने के लिये कहा गया तो वह सकपकाने लगे थे। मो०सा० चालक मो०सा० को तुरन्त भगा ले गया तथा एक व्यक्ति वही को पकड़ लिया गया तथा मो०सा० पर दोनो व्यक्तियों के बीच में रखी बोरी भी बरामद हुई जिसमें 04 पत्रियों में 04-04 कि०ग्रा० अफीम (कुल 16 कि०ग्रा०) जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 48 लाख रूपये, बरामद हुई । पकड़े गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो उसने अपना नाम विमल पुत्र बालकराम निवासी कुण्डरिया फैजुल्लापुर थाना अलीगंज जिला बरेली तथा भागे हुये व्यक्ति का नाम राम बहादुर पुत्र प्रेमपाल निवासी कुण्डरिया फैजुल्लापुर थाना अलीगंज जिला बरेली बताया तथा बताया कि वह अफीम खरीदने बेचने का काम करते है । इस संबंध में थाना अलीगंज पर मु०अ०सं० 120/21 धारा 8/18 एनडीपीएस एक्ट बनाम विमल व रामबहादुर उपरोक्त के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया है ।

नाम पता अभियुक्तगण:-

1. विमल पुत्र बालकराम निवासी कुण्डरिया फैजुल्लापुर थाना अलीगंज जिला बरेली (गिरफ्तार)
2. राम बहादुर पुत्र प्रेमपाल निवासी कुण्डरिया फैजुल्लापुर थाना अलीगंज जिला बरेली (फरार)

बरामदगी का विवरण:-

16 कि०ग्राम अफीम जिसकी अंतर्राष्ट्रीय कीमत करीब 48 लाख रूपये ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1. उ०नि० श्री देवेन्द्र सिंह
2. का० 2995 रजनीश कुमार
3. का० 2997 रविगिरी

**थानाध्यक्ष अलीगंज
जनपद बरेली।**